

संपादकीय

सरकारी नौकरी की मृग मरीचिका

आठ सालों में 22.05 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। सोचें, सिर्फ 7.22 लाख लोगों को नौकरी मिली। एक हजार लोगों में से सिर्फ तीन लोगों को नौकरी मिली।

भारत में सरकारी नौकरी सपने की तरह है। लगभग हर नौजवान सरकारी नौकरी की कल्पना के साथ ही अपने करियर निर्माण की शुरुआत करता है। तभी जब चुनाव लड़ने से पहले पार्टियां वादा करती हैं कि सरकार बनी तो एक करोड़ या दो करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी तो युवा उस पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन अंत में सरकारी नौकरी की उम्मीद मृग मरीचिका साबित होती है। पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन का बेहतरीन समय एक भ्रम का पीछा करने में गंवा दिया और जब भ्रम टूटा तो वे किसी काम के नहीं रह गए। फिर जो निराशा और अवसाद पैदा होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कई सरकार ने संसद के चालू सत्र में बताया है कि पिछले आठ साल में उसने सिर्फ 7.22 लाख लोगों को नौकरी दी है। यानी हर साल औसतन एक लाख से भी कम लोगों को नौकरी मिली है। इससे भी चिंताजनक आंकड़ा यह है कि इन आठ सालों में 22.05 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। सोचें, 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7.22 लाख लोगों को नौकरी मिली। सिर्फ 0.33 फीसदी यानी आवेदन देने वाले एक हजार लोगों में से सिर्फ तीन लोगों को नौकरी मिली। सोचें, बाकी लोग कहाँ गए होंगे? क्या उनको निजी क्षेत्र में नौकरी मिली होगी या मनरेगा में काम कर रहे होंगे या उन्होंने पकोड़ लगाने जैसा कोई स्वरोजगार शुरू किया होगा?

भारत सरकार ने पिछले आठ साल में जिन 7.22 लाख लोगों को नौकरी दी है उनमें सबसे ज्यादा 1.47 लाख लोगों को 2019-20 में नौकरी मिली थी। यानी जिस साल लोकसभा के चुनाव होने थे उस साल में सबसे ज्यादा नौकरी मिली। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 2014-15 में नई सरकार बनने के बाद से ही सरकारी नौकरियों में कमी आने लगी थी। चुनाव प्रचार में हर साल दो करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन वास्तव में हर साल एक लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। जस्टिस नौकरी की यह स्थिति है तो निजी सेक्टर में इससे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। नोटबंदी से लेकर जलवाजी में जीएसटी लागू करने और उसके बाद आई कोरना की महामारी ने अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया उससे नौकरी का पूरा परिदृश्य बदल गया। देश में ऐतिहासिक बेरोजगारी की स्थिति है और उसी समय सांप्रदायिक विभाजन के एजेंड से चिंगारी भड़काने की कोशिशें हैं। इससे देश के सामने गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

तानिया सचदेव ने भारत की महिला टीम को जीत दिलाई

मामल्लापुरम। तानिया सचदेव ने कीमती अंक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की और यह उनका ही शानदार प्रदर्शन था जिसके दम पर भारत-ए टीम ने मामल्लापुरम में जारी 44 वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे राउंड के मैच में हंगरी के खिलाफ 2.5-1.5 के अंतर से सनसनीखेज जीत दर्ज की।



कोनरू हम्पी, ग्रेनाडाल्ली हरिका और आर वैशाली के अपने-अपने मुक़ाबलों में झूँ खेलेने के बाद, सचदेव ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए सामने आए अवसर पर शानदार प्रदर्शन किया। तानिया ने निर्णायक अंक अर्जित करने के साथ-साथ टीम के लिए मैच पर कब्जा करने के लिए जसोका गाल को हराया।

तानिया के इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भारत की महिला ए टीम में कौच अभिजीत कुटे ने कहा, टीम में अच्छी तरह से संतुलित हैं और एक समय में एक राउंड खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सभी मैचों में हमने अच्छा प्रदर्शन किया।

11वीं वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बी टीम ने भी इसी तरह के 2.5-1.5 स्कोर के साथ एस्टोनिया को हराया। वंतिका अग्रवाल ने अपने विजयी अभियान का विस्तार करते हुए टीम के लिए जीत का अंक हासिल किया जबकि अन्य तीन गेम ड्रॉ समाप्त हुए। इस बीच चौथे दिन को हुए एक बड़े उलटफेर में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विश्व चैम्पियनशिप चैलेंजर फेबियानो कारुआना को उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसतारोव ने हरा दिया। 17 वर्षीय कौतुक अब्दुसतारोव के कोच ने कहा, यह एक कठिन स्थिति थी और मुझे पता था कि हमारे दो बोर्ड ड्रॉ में समाप्त हो गए थे। हमारे खिलाफ एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी टीम थी। अब समय आ गया है कि हमें मजबूत टीमों के खिलाफ खेलना होगा। इसलिए, मुझे लगता है कि हमें प्रतियोगिता के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हम अगले मैच की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी समाप्त, सरकार को 1 लाख 50 हजार 173 करोड़ रुपये मिले

नई दिल्ली। सरकार ने स्पेक्ट्रम को समाप्त हुई 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से 1 लाख 50 हजार 173 करोड़ रुपये की कमाई की।



और 26 जीएचजेड बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया, जबकि एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपये में नीलामी के माध्यम से 900मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 26 जीएचजेड फ्रीक्वेंसी बैंड में 19,867.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया।

की शक्ति को अपनाकर दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन जाएगा। यह वह दूरदृष्टि और दृढ़ विश्वास था जिसने जियो को जन्म दिया। जियो के 4जी शुरू करने की गति, पैमाना और सामाजिक प्रभाव दुनिया में कहीं भी बेजोड़ है। अब एक बड़ी महत्वाकांक्षा और मजबूत संकल्प के साथ, जियो भारत में 5 जी के युग की शुरुआत का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा, हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे भारत में 5जी शुरुआत के साथ मनाएंगे। जियो विश्वस्तरीय, किफायती

5 जी और 5 जी -सक्षम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, विनिर्माण और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और प्रधान मंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन में एक और गौरवपूर्ण योगदान देंगे।

भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और मुख्यकार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्टल ने कहा, एयरटेल 5जी नीलामी के परिणामों से खुश है।

फिल्म उद्योग में 30 साल पूरे करने पर अजय देवगन ने काजोल के लिए लिखा नोट

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने हिंदी सिनेमा में तीन दशक पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर, उनके पति, अभिनेता-निर्माता-निर्देशक अजय देवगन ने अपनी पत्नी के लिए एक विशेष संदेश साझा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को इजहार किया। रवने 24 के अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म तानाजी: द अनसंग वॉरियर्स से एक तस्वीर साझा की, जहां उन्हें और काजोल को एक साथ महाराष्ट्रीयन लोक नृत्य में देखा जा सकता है।

अजय ने कैप्शन में लिखा, सिनेमा में तीन दशक और, आप सभी उदासिंह हैं। सच कहूं तो आप अभी शुरुआत कर रही हैं। कई और मील के पथर, फिल्मों और यादों के लिए। 1992 की फिल्म बेखुदी से अपने फिल्मों की शुरुआत करने वाली काजोल ने अपने 30 साल के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें बाजिरंग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क़रण अर्जुन, गुप्त, प्यार तो होना ही था कुछ कुछ होता है और

कभी खुशी कभी गम शामिल हैं। अभिनेत्री ने 2021 में अपनी स्टीमिंग फिल्म त्रिभांग के साथ डिजिटल शुरुआत की और अपनी आगामी वेबसीरीज के साथ लंबे प्रारूप वाली सामग्री की दुनिया में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगी।

उन्होंने कहा, हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे भारत में 5जी शुरुआत के साथ मनाएंगे। जियो विश्वस्तरीय, किफायती

भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और मुख्यकार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्टल ने कहा, एयरटेल 5जी नीलामी के परिणामों से खुश है।

अभिनेत्री शुभांगी अत्रे, जो झलक दिखला जा के आगामी सीजन में भाग लेने के लिए तैयार थीं, ने अपनी चोट के कारण शो से बाहर हो गई हैं। अब शिल्पा शिंदे उनकी जगह लेने जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुभांगी ने लोकप्रिय सिटकॉम भाभीजी घर पर हैं में भाभीजी की मुख्य भूमिका के लिए शिल्पा शिंदे की जगह ली थी।

अब शिल्पा शुभांगी की जगह डांस रियलिटी शो में शामिल हो गई हैं। शिल्पा इससे पहले 2018 में बिग बॉस 11 भी जीत चुकी है। संयोग से शुभांगी और शिल्पा कई बार एक-दूसरे को रिप्लेस कर चुके हैं। लोकप्रिय नाटक चिडिया घर में भी शुभांगी ने कोयल की भूमिका के लिए शिल्पा की जगह ली थी।

'मुगलई मलाई मटर मखाना' की सब्जी

गर्मियों में गिनी चुनी सब्जियां ही मिलती हैं और रोजाना एक ही तरह की सब्जी खाना बोरियत भी होने लगती है, तो स्वाद में बदलाव के लिए ट्राय करें मुगलई मलाई मटर मखाना की सब्जी।



सामग्री :
मखाना- 100 ग्राम, मटर- 200 ग्राम, नमक- स्वादानुसार, इलायची पाउडर- 1/2 टीस्पून, काजू- 1/4 कप, खसखस- 1 टेबलस्पून, खरबूजे के बीज- 1 टेबलस्पून, प्याज- 150 ग्राम, हरी मिर्च- 1 टीस्पून, चक्र फूल- 1, अदरक- 1 टेबलस्पून, दालचीनी- 1, इलायची- 1, तेजपत्ता- 1, पानी- 2 कप, तेल- 1 टेबलस्पून, घी- 1 टेबलस्पून, जीरा- 1 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम- 1 टेबलस्पून, दही- 1/4 कप, कसूरी मेथी- 1 टीस्पून

मिर्च, चक्र फूल, अदरक, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, काजू, खसखस, खरबूजे के बीज और पानी डालकर 5-6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर उबालें। इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें फिर इसे पीस कर पेस्ट बना लें। एक दूसरे पैन में तेल गरम करें इसमें जीरा का तड़का लगाएं। इसके बाद इसमें इस पेस्ट को डालें और मीडियम आंच पर 8 से 9 मिनट तक ग्रेवी को पकाएं जिससे ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। बीच-बीच में इसे चलाते रहें। इसके बाद बारी है इसमें क्रीम मिक्स करने की। जिसे डालने के बाद और दो से तीन मिनट पकाना है। अब इसमें नमक डालें। इसके बाद 1 कप पानी डालें और 6-7 मिनट और पकाना है। फिर इसमें मटर डाल दें। कसूरी मेथी ऊपर डालें और सब्जी को अच्छी तरह चलाएं जिससे सारी चीजें मिक्स हो जाएं। तैयार है मुगलई मेथी मटर मलाई सर्व करने के लिए।

विधि :
मखाना करी के लिए- एक पैन में घी गर्म करें इसमें मखानों को धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लें। भूने के बाद इनका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है।

मेथी के लिए- एक पैन में कटे हुए प्याज, हरी

शब्द सामर्थ्य- 152

बाएं से दाएं

1. घुमाव-फिराव वाला, आड़ा-तिरछा, जो कठिन हो 3. कुशल, दक्षता, विशेषज्ञता 6. लूण, प्रजा 7. सीता, जनकनंदनी 9. सुंदर, कामना करने योग्य 10. बीखलाया हुआ। 11. संदेश भोजना, उच्चारण कराना, कहलवाना 12. मृतकों को जीवित और रीतियों को स्वस्थ कर देने वाला व्यक्ति, प्रेमपात्र की संज्ञा 14. देने की क्रिया, खैरात 5. कुमार्गी, दुराचारी 17. मस्तक, माथा, ललाट 18. प्रश्न, समरस्य 20. सहायता, चहरे का लाल होना 13. 2. परिश्रम 4. रात, रात्रि, निशा 5. सहारा 21. पशुओं को खिलाने अधीनता, मातहत्य, वश 14. पुत्र, बेटा 8. मूल्य, दाम 9. कपड़े

ऊपर से नीचे

1. सहारा, आश्रय, प्रतिज्ञा, संकल्प 2. परिश्रम 4. रात, रात्रि, निशा 5. सहारा 21. पशुओं को खिलाने अधीनता, मातहत्य, वश 14. पुत्र, बेटा 8. मूल्य, दाम 9. कपड़े

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 151 का हल

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22			

ज	द	जे	ह	द	स	पू	त
ल	ख	ल	वा	न			द
म	ह	क	खा	म	खां		बी
ग	त	ल	ना	स	फ	र	
म	रा						ना
हि	स				फ	न	
ला	ज	वा	व	म	ट	र	
मां	ग	सं	त	ति			भ
मा	त	ह	त		प	क्षी	

सू-दोक्- 152

3					7
9		6		3	8
7		9		5	
				1	9
3		8		7	
		1		3	9
		2		8	7
8				2	4
					3
		1			

नियम

1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 90 वर्गों का एक खंड बनता है।

2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक रखा जा सकता है।

3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम्ब, कतार और छोड़ में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार हो कर सकते हैं।

सू-दोक् क्र.151 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

घोषाल सेमीफाइनल में, जोशना क्वार्टरफाइनल में हारी

बर्लिन। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के स्क्व मुक़ाबलों में मिता जुला रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सौरव घोषाल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं जबकि जोशना चिनप्पा को महिला क्वार्टरफाइनल में हार का सामना करना पड़ा।



घोषाल ने स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबान को 3-1 (11-5, 8-11, 11-7, 11-3) से हराया और अब उनका सेमीफाइनल में विश्व के नंबर दो न्यूजीलैंड के पॉल कॉल से मुकाबला होगा।

प्रो कबड्डी लीग के सीजन 9 की नीलामी पांच अगस्त से, प्रोमो में नजर आए 'सुल्तान'

मुंबई। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग के बाद यदि किसी खेल को फ्रेंचाइजी बंडल लीग में सबसे ज्यादा नाम मिला है, तो वह है प्रो कबड्डी लीग। वर्ष 2014 में शुरू हुआ यह सफर आठ सफल सीजन के बाद 9वें सीजन में जा पहुंचा है, जिसे लेकर जोर-शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच प्रो कबड्डी लीग के आयोजक ने 9वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया है। जिसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा।

इससे पहले जोशना को कनाडा की होली नॉटन से लगातार सेटों में हार का सामना करना पड़ा। नॉटन ने जोशना को 11-9, 11-5, 15-13 से हराया।

जोमैटो के शेयरों में 17 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल, 103 रुपये तक का है नया टारगेट

नई दिल्ली। जोमैटो के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के शेयर 17 पैसेट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार, 2 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 175.15 पैसेट की तेजी के साथ 54.30 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। शेयर मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि जोमैटो के शेयर 103 रुपये तक जा सकते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हायर इनकम के कारण कंपनी का कर्सांलिडेटेड नेट लॉस आधा घटकर

हाउस एंबिट ने भी जोमैटो के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और कंपनी के शेयरों के लिए 103 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। पिछले दिनों कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्व्स्टिज ने कहा था कि जोमैटो के शेयरों के लिए सबसे खराब समय खत्म हो गया है। अब कंपनी के शेयरों में तेजी आने की उम्मीद है।

जून तिमाही में कम हुआ है जोमैटो का घाटा

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में जोमैटो का कर्सांलिडेटेड नेट लॉस घटकर 185.7 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का घाटा 356.2 करोड़ रुपये था। वहीं, मार्च 2022 तिमाही में जोमैटो को 359.7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। जून 2022 तिमाही में जोमैटो का कर्सांलिडेटेड रेवेन्यू 16 पैसेट घटकर 1414 करोड़ रुपये था। जून 2021 तिमाही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू 844 करोड़ रुपये था। वहीं, मार्च 2022 तिमाही में यह 1212 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़कर 6,430 करोड़ रुपये रही है।

आज का राशिफल

मेघ : उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। शेयर मार्केट से बड़ा लाभ हो सकता है। यात्रा लाभदायक रहेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास कर संचित कोष में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। कारोबारी सौदे बढ़े हो सकते हैं।

वृष : शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी। लेन-देन में सावधानी रखें। फालतू खर्च पर निबंध रखें। बजट बिगड़ सकता है, कई लेन-देन पड़ सकता है। अपरिचित व्यक्तियों पर अंधविश्वास न करें। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें।

मिथुन : यात्रा लाभदायक रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि होगी। निवेश लाभदायक रहेगा। कांयती बचत से संभालकर रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निवेश चिंता बनी रहेगी। व्यापार - व्यवसाय में मनोकुल लाभ होगा।

सिंह : व्यापार में लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। निवेश में सौच-समझकर हाथ डालें। कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति निश्चित होगी। प्रेम-असंग में जोखिम न लें। शुरुआती विवाद में न पड़ें।

कन्या : वाणी पर निबंध रखें। चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। घर-परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। फालतू खर्च होगा। विवाद को बढ़ावा न दें। अपेक्षाकृत कार्यों में विलंब होगा।

तुला : उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। बड़ा काम करने का मन बनेगा। झंझटों से दूर रहें। कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। भूले-बिसरे साधियों से मुलाकात होगी। विरोधी सक्तिय रहेगी। जल्लबाजी में कोई निर्वणन न लें।

वृश्चिक : फालतू बातों पर ध्यान न दें। मेहनत अधिक व लाभ कम होगा। किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएँ। शत्रुओं की बुरिय होगी। दर से बुरी खबर मिल सकती है। दीर्घदुर्घ अधिक होगी। बेवजह तनाव रहेगा।

धनु : स्थायी संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है। समय पर कर्ज चुका पाएंगे। बरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेगा। पतिशा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न तथा संतुष्ट रहेगा।

मकर : पूजा-पाठ में मन लगेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। व्यवसाय में ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ समय न गंवाएँ। जल्लबाजी से हानि संभव है। धकान रहेगी। कुसमंति से बचें। निवेश शुभ रहेगा। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा।

कुंभ : सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों की सहायता कर पाएंगे। आय में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। व्यापार - व्यवसाय लाभदायक रहेगा। घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। जल्लबाजी न करें। पुराना रोग उभर सकता है।

मीन : व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा। समय की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेगा। मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा।